

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*186**

**10 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए**

**भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात  
का उत्पादन और निर्यात किया जाना**

**\*186. सुश्री सरोज पाण्डेय:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उत्पादित इस्पात का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात के किए गए निर्यात की स्थिति क्या है; और
- (ग) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भारतीय रेल को की जा रही इस्पात की पटरियों की आपूर्ति की स्थिति क्या है और भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भारतीय रेल के आपूर्ति आदेश में से कितने प्रतिशत की आपूर्ति की गयी है?

**उत्तर**

**इस्पात मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का उत्पादन और निर्यात किया जाना” के बारे में सुश्री सरोज पाण्डेय, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में दिनांक 10 जुलाई, 2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या \*186 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा कच्चे इस्पात का उत्पादन निम्नानुसार रहा:

मिलियन टन में

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
कच्चा इस्पात	14.5	15.0	16.3

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान सेल द्वारा बिक्री योग्य इस्पात का निर्यात निम्नानुसार रहा:

हजार टन में

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
निर्यात	672	700	760

(ग): वर्ष 2016-17 से भारतीय रेलवे से प्राप्त भारी मांग और तदनुसूची भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रेल की आपूर्ति (रेलवे प्रोजेक्ट के लिए आरवीएनएल और आईआरसीओएन को संविदात्मक आपूर्ति सहित) और उसकी प्रतिशतता की पूर्णता नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

हजार टन में

वर्ष	भारतीय रेलवे द्वारा भारी मांग	आपूर्ति	प्रतिशतता की पूर्णता
2016-17	1005	620	61.7 %
2017-18	1145	874	76.3 %
2018-19	1400	945	67.5 %
2019-20	1350	268 (अप्रैल-जून, 19)	इस वर्ष के लिए 19.85% की भारी मांग

\*\*\*\*